

जमाअत के निर्वाचन  
तथा  
उमरा की मज्लिस के निर्वाचन  
की नियमावली  
तथा  
जमाअत के उहदेदारों की ज़िम्मेदारियां

प्रकाशक  
नज़ारत उलिया सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान  
2016

**नाम पुस्तक :** जमाअत के निर्वाचन तथा उमरा के निर्वाचन की  
नियमावली (क्रवाइद) तथा जमाअत के उहदेदारों  
(पदाधिकारियों) के दायित्व (ज़िम्मेदारियां)

**अनुवादक -** अन्सार अहमद, एम.ए.एम.फिल., पी.जी.डी.टी. आनर्स इन अरबिक

**संख्या -** 2000

**प्रकाशन वर्ष -** प्रथम संस्करण - 2013  
द्वितीय संस्करण - 2016

**प्रकाशक -** नज़ारत उलिया सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान

**मुद्रक -** फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान 143516  
ज़िला - गुरदासपुर, (पंजाब)

## **प्राक्कथन**

जैसा कि आपको ज्ञात है कि मौजूदा उहदेदारों का निर्धारित समय 31 मार्च 2016 ई. को समाप्त हो जाएगा। इसलिए 31 मार्च से पहले पहले चन्दों की पूरी अदायगी करते हुए हिसाब साफ करके नए निवाचन करवा कर भिजवाए जाएं ताकि अप्रैल माह से मंजूरी के लिए भिजवाने की कार्रवाई की जा सके और फिर उसके अनुसार नए उहदेदारों के चार्ज लेने-देने की कार्रवाई पूरी हो सके। इस निवाचन (इन्तिखाब) की टर्म अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक होगी।

नाजिर आला  
सदर अंजुमन अहमदिया  
क़ादियान

## लोकल अंजुमनों (जमाअतों) के बारे में नियम तथा निर्देश

याद रखना चाहिए कि जिस जगह तीन या उन से अधिक चन्दा देने वाले अहमदी मौजूद हों वहां वहां नियमित रूप से जमाअत का क्रायम किया जाना आवश्यक है।

अगर नामांकन दस से कम हो तब भी एक सदर जमाअत तथा एक सेक्रेटरी माल अवश्य नियुक्त होना चाहिए। फिर जमाअत की संख्या के अनुसार दूसरे सेक्रेटरी नियुक्त किए जाने चाहिएं।

ये उहदेदार निर्वाचन के द्वारा नियुक्त होने चाहिएं, लेकिन जहां कम नामांकन (तज्जीद) हो वहां के लिए सदर तथा सेक्रेटरी माल को मनोनीत करने (नामज़ादगी) की सिफारिश भी की जा सकती है।

### **उहदेदारों को निर्वाचित करने के नियम**

इस स्पष्टीकरण (वज़ाहत) के साथ नीचे लोकल जमाअतों के बारे में सदर अंजुमन अहमदिया क्रादियान के नियम लिखे जा रहे हैं :-

**नियम (क्राइदः) नं. (290)** जमाअत अहमदिया की व्यवस्था (निजाम) के तहत हर ऐसी जगह जहां जमाअत अहमदिया के कुछ सदस्य मौजूद हों नाज़िर आला की अनुमति से एक लोकल अंजुमन क्रायम की जा सकेगी जिसके सदस्य लोकल जमाअत के वयस्क (बालिग) लोग होंगे।

---

**नियम नं. (291)** ये लोकल अंजुमनें जो सिलसिले के कामों को चलाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्रायम की जाएंगी, सदर अंजुमन अहमदिया विभागों (सीगःजात) के नाज़िरों तथा अफ़सरों की निगरानी और निर्देशों के अधीन होंगी। ऐसी अंजुमनों को सदर अंजुमन अहमदिया की तरफ से इस बात की पुष्टि (तस्दीक) में एक प्रमाण पत्र (सर्टीफिकेट) प्रदान किया जाएगा कि वे सदर अंजुमन अहमदिया की शाखा हैं।

**नियम नं. (292)** हर लोकल अंजुमन का कर्तव्य होगा कि लोकल जमाअत के सभी सदस्य (पुरुष, स्त्री, वयस्क, अवयस्क (बालिग, नाबालिग) का निर्धारित फार्म पर एक रजिस्टर में लिखें (नज़ारत उलिया की तरफ से नामांकन (तज्नीद) का जो प्रोफ़ार्म भिजवाया गया है उसको पूरा करके लोकल जमाअत में रखा जाए और एक नक्ल नज़ारत उलिया में भिजवाई जाए।

**नियम नं. (293)** जो मामले जमाअत के प्रबंध या कर्तव्य अमारत के साथ संबंध रखते हों उनमें लोकल जमाअत के लोगों को लोकल अमीर / सदर का आज्ञापालन करना आवश्यक होगा।

**नियम नं. (296)** वैध (जायज़) होगा कि एक से अधिक जगहों की लोकल अंजुमनों को मिला कर क्षेत्रों के अनुसार (हलकावार) या ज़िला की या इलाक़े या सूबे या मुल्क की अंजुमनों की व्यवस्था (निज़ाम) क्रायम की जाए। इस स्थिति में उनमें से हर व्यवस्था अपने से ऊपर वाली व्यवस्था के अधीन होगी और ये सारी व्यवस्थाएं केन्द्रीय (मर्कज़ी) व्यवस्था के अधीन होंगी।

**नियम नं. (299)** हर लोकल अंजुमन के लिए आवश्यक होगा

कि अपने काम के विभिन्न विभागों (सीःजःजात) की कारगुजारी के संबंध में मर्कज्ज संबंधित विभागों में सालाना रिपोर्ट भेजे। तथा इसके अलावा साल के दौरान भी मर्कज्ज की मांग के अनुसार रिपोर्ट भेजती रहे। नज़ारत उलिया की तरफ से जो कारगुजारी की माहवार रिपोर्ट का फ़ार्म है उसे नियमित रूप से भिजवाना आवश्यक है।

**नियम नं. (300)** हर लोकल अंजुमन से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी जगह पर एक मस्जिद तथा एक लाइब्रेरी का प्रबंध करे। मस्जिद न होने की स्थिति में लोकल जमाअत का कर्तव्य होगा कि किसी ऐसी जगह का प्रबंध करे जहां जमाअत के लोग नमाज बाजमाअत, जुमा इत्यादि तथा अन्य जल्सों के लिए एकत्र हो सकें।

**नियम नं. (303)** हर लोकल अंजुमन का कर्तव्य होगा कि मर्कज्ज से जब कोई नाज़िर दौरे पर किसी जगह जाए तो खलीफतुल मसीह के प्रतिनिधि (नुमायन्दः) की हैसियत में उचित सम्मान के साथ आवश्यक प्रबंध करे।

### निर्वाचन (इंतिखाब)

हर लोकल अंजुमन के लिए आवश्यक होगा कि सदर अंजुमन अहमदिया के विभिन्न सीःगों (विभागों) के उद्देश्यों के लिए स्थानीय तौर पर विभिन्न उहदेदार नियुक्त करे। यह उहदेदार मर्कज्ज के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने विभाग (सीःगे) से संबंधित अमीर या सदर के अधीन काम करेंगे और समस्त आवश्यक और उचित रिकार्ड रखेंगे। ये उहदेदार स्थानीय अंजुमनों के सामान्य जल्से में निर्वाचित होंगे। जायज्ज होगा कि काम के प्रकार की दृष्टि से एक से अधिक उहदे एक ही व्यक्ति को दिए जाएं।

---

**नियम नं. (306)** लोकल अंजुमन अपने काम में आसानी के लिए अपने अधीन इन्तिजाम करने वाली मज्जिस क्रायम करेगी जिसके सदस्य (मेम्बर) लोकल उहदेदार होंगे। इस मज्जिस का नाम मज्जिस आमिलः (कार्यकारिणी सभा) होगा। इस मज्जिस का लीडर लोकल अमीर / सदर होगा।

**नियम नं. (307)** लोकल अंजुमन की मज्जिस आमिलः के निम्नलिखित मेम्बर होंगे -

अमीर / सदर, नायब अमीर / नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद, एडीशनल सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद (नौ मुबाइयीन की तर्बियत) एडीशनल सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद (तालीमुल कुर्�आन वक्फ़ आरज़ी), सेक्रेटरी दावत इलल्लाह, सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी उम्रे आम्सः, सेक्रेटरी उम्रे खारिजः, सेक्रेटरी वसाया, सेक्रेटरी माल, नायब सेक्रेटरी माल, सेक्रेटरी तस्नीफ़-व-इशाअत, एडीशनल सेक्रेटरी तस्नीफ़-व-इशाअत (समई-व-बसरी), सेक्रेटरी जिग्राअत, सेक्रेटरी सनअत-व-तिजारत (उद्योग तथा व्यापार), सेक्रेटरी जियाफ़त, सेक्रेटरी जायदाद-व-इम्लाक (सम्पत्ति), इमामुस्सलात, क्राज़ी, आडीटर, अमीन, मुहासिब, सेक्रेटरी तहरीक जदीद, सेक्रेटरी वक्फ़ जदीद, एडीशनल सेक्रेटरी वक्फ़ जदीद (नौ मुबाइयीन), सेक्रेटरी वक्फ़ नौ, सेक्रेटरी रिश्ता नाता, ज़ईम / ज़ईम आला मज्जिस अन्सारुल्लाह, क्राइद मज्जिस खुदामुल अहमदिया, मुरब्बी सिलसिला।

**नोट नं. 1-** किसी एक लोकल अंजुमन में अगर ज़ैली तंज़ीमों के ज़ईम और ज़ईम आला अन्सारुल्लाह और खुदामुल अहमदिया के क्राइद दो या दो से अधिक हों तो उसके लिए संबंधित ज़ैली तंज़ीम

---

का सदर लोकल मज्जिलस आमिलः के लिए एक प्रतिनिधि (नमुमाइन्दा) मनोनीत करेगा।

**नोट नं. 2** - अगर लोकल अंजुमन में मुरब्बी सिलसिला दो या दो से अधिक हों तो नाजिर आला मज्जिलस आमिलः के लिए एक प्रतिनिधि (नमुमाइन्दा) नियुक्त करेगा।

**नोट नं. 3** - अमीर / सदर को अधिकार होगा कि वह किसी को भी मशवरा करने के लिए मज्जिलस आमिलः के इज्जलास में बुलाए परन्तु वह वोट नहीं दे सकता।

**नियम नं. (308)** उमरा तथा दूसरे उहदेदारों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए हुआ करेगा लेकिन जायज़ा होगा कि खास (विशेष परिस्थितियों) हालतों में मर्कज़ की इजाज़त से बीच में कोई परिवर्तन (तब्दीली) किया जाए। निर्वाचन या नियुक्ति शेष रहे समय के लिए होगी।

**नियम नं. (309)** जमाअत के हितों (मस्लिहतों) की बुनियाद पर निर्धारित तीन वर्षीय अवधि के दौरान भी लोकल अमीर या अमीर हल्कः या अमीर ज़िला या अमीर इलाक़ा: या अमीर सूबा या अमीर मुल्क को बिना कारण बताए अपने उहदे से अलग किया जा सकेगा तथा इसकी मंज़ूरी ख़लीफ़तुल मसीह से लेना आवश्यक होगी। लेकिन लोकल जमाअत या लोगों को अपने मशवरों इत्यादि में उसे अलग करने के प्रश्न को उठाने की अनुमति (इजाज़त) न होगी।

**नियम नं. (310)** - सदर अंजुमन अहमदिया के नाजिर, नायब नाजिर तथा सीझे के अफसरों, इसी तरह तहरीक जदीद के वकीलों, नायब वकीलों तथा सीझे के अफसरों और वक़्फ़े जदीद के नाज़िम,

नायब नाज़िम किसी लोकल उहदे के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते। इस तरह क्राज़ी भी किसी और उहदे के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता।

**नियम नं. (311)** (अ) लोकल सदर का निर्वाचन लोकल जमाअत की बहुसंख्या के वोट से होगा।

(ब) कोरम कुल वोट देने वालों का आधा होगा लेकिन अगर पहले इज्लास में नियमित नोटिस के बावजूद कोरम पूरा न हो तो दूसरे इज्लास का कोरम  $1/3$  होगा।

**नियम नं. (313)** - कोरम का निर्धारण (तअय्युन) बजट में शामिल कुल सदस्यों की संख्या (तादाद) में से स्त्रियों तथा स्टूडेण्ट्स की संख्या को घटाने के बाद बाकी रहे चन्दा देने वालों बकायादारों को शामिल करते हुए की कुल संख्या से होगा।

**नियम नं. (314)** उमरा के निर्वाचन के समय हर उस सदस्य को जो क्रवाइट के तहत निर्वाचन में हिस्सा ले सकता हो इस बात के लिए नियमित लिखित नोटिस 15 दिन पहले होना चाहिए कि अमुक तारीख को अमीर का निर्वाचन होगा और उसके लिए अमुक वक्त और अमुक जगह निर्धारित की गई है और उस नोटिस पर हर सदस्य को इतिला (सूचना) देने के हस्ताक्षर (दस्तखत) करवाए जाएं। निर्वाचन के इज्लास में किसी सदस्य का बिना उचित बहाना तथा वक्त से पहले बिना इतिला गैर हाज़िरी क्राबिले गिरफ्त कोताही होगी। इसलिए अगर कोई सदस्य उचित बहाने के बिना इस लिखित नोटिस के मिलने के बाद गैर हाज़िर रहेगा तो उसकी रिपोर्ट नज़ारत उलिया में भिजवाई जाएगी।

---

नियम नं. (317) हर उहदे की अहमियत (महत्व) तथा कर्तव्यों (फराइज़) की स्थिति के अनुसार उसके लिए उहदेदार का निर्वाचन होना चाहिए और दोस्तों को वोट देते हुए योग्यता के प्रश्न को हर स्थिति में मुकद्दम (प्राथमिक) रखना चाहिए। केवल नाम के तौर पर फुर्सत न होने वाले, सुस्त या गैर मुश्किलस या अयोग्य (ना अहल) या किसी रंग में बुरा नमूना रखने वाले व्यक्ति को निर्वाचित नहीं करना चाहिए।

नियम नं. (318) - निर्वाचन के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक से अधिक उहदे एक ही व्यक्ति के सुपुर्द सिवाए खास मजबूरी के न किए जाएं ताकि काम की अधिकता के कारण जमाअत के कामों में कोई हर्ज (हानि) और दोष न आए तथा अधिक से अधिक दोस्त काम करने की तर्बियत (प्रशिक्षण) प्राप्त कर सकें।

नियम नं. (319) केवल निम्नलिखित उहदेदारों की लिस्ट मंजूरी के लिए नज़ारत उलिया आनी चाहिए / अमीर / सदर, नायब अमीर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद, एडीशनल सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद, (नौ मुबाइयीन की तर्बियत), तालीमुल कुर्�आन वक़्फ़ आरिज़ी, सेक्रेटरी दावत इलल्लाह, सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी उम्रे आम्मः, सेक्रेटरी उम्रे खारिजः, सेक्रेटरी वसाया, सेक्रेटरी माल, नायब सेक्रेटरी माल, सेक्रेटरी तस्नीफ़-व-इशाअत (समई-व-बसरी), सेक्रेटरी ज़िराअत (खेती-बाड़ी), सेक्रेटरी ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी), सेक्रेटरी जायदाद तथा इम्लाक (सम्पत्ति) सेक्रेटरी रिश्ता नाता, इमामुस्सलात, क़ाज़ी, आडीटर, अमीन, मुहासिब।

नोट नं. 1 - निम्नलिखित उहदेदारों की मंजूरी संबंधित इदारों

---

(विभागों) से ली जाए। क्राज़ी, सेक्रेटरी तहरीक जदीद, सेक्रेटरी वक़्फ़ जदीद, एडीशनल सेक्रेटरी वक़्फ़ जदीद (नौ मुबाइयीन), सेक्रेटरी वक़्फ़ नौ, अन्सारुल्लाह तथा खुदामुल अहमदिया के उहदेदार।

**नोट नं. 2 - सेक्रेटरी वसाया का मूसी होना आवश्यक होगा।**

नियम नं. (321) चन्दा लेने वालों के लिए लोकल मजिलस आमिलः की मंजूरी काफी है। हाँ उनके संबंध में नज़ारत बैतुलमाल (आमद) में सूचना की रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि अगर कोई अनुचित नियुक्ति हो तो उसका सुधार हो सके।

नियम नं. (323) हर लोकल अंजुमन जिसके चन्दा देने वालों की संख्या चालीस या चालीस से अधिक हो तो लोकल लोगों के झगड़ों को निपटाने के लिए एक क्राज़ी नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा। अमीर या सदर या कोई और उहदेदार क्राज़ी के कर्तव्य निभाने का अधिकार नहीं रखेगा।

**नोट नं. 1 - आवश्यकतानुसार एक से अधिक क्राज़ी भी नियुक्त किए जा सकते हैं।**

**नोट नं. 2 - साध्यदिना हज़रत खलीफ़तुल मसीह पंचम ने भारत की जमाअतों तथा ज़िलों में क्राज़ी नियुक्त किए जाने के बारे में एक कमेटी नियुक्त की है जो क्राज़ीयों के नाम प्रस्तावित (तज्वीज़) करके हुज़ूर अनवर से मंजूरी प्राप्त करती है।**

नियम नं. (324) अगर किसी अमीर या किसी और दूसरे लोकल उहदेदार के निर्वाचन के बारे में यह शिकायत प्राप्त होगी और यह शिकायत छानबीन पर सही पाई गई कि उसने किसी के हक्क (पक्ष) में प्रोपेगण्डा किया है तो उस निर्वाचन को निरस्त कर दिया जाएगा।

और प्रोपेगण्डा करने वालों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी और दोबारा निर्वाचन के समय उन्हें इज्लास में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

**नियम नं. (325)** प्रोपेगण्डा में हर ऐसी बात शामिल होगी जिसमें जमाअत के सदस्यों या किसी सदस्य पर किसी प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति के हक्क में या उसके विरुद्ध वोट पैदा करने की कोशिश की जाए। यद्यपि सदर इज्लास की इजाजत से निर्वाचन की मजिलस में प्रस्तावित लोगों के हक्क में उचित शब्दों में संक्षिप्त भाषण दिया जा सकेगा लेकिन किसी व्यक्ति के विरुद्ध भाषण देने की इजाजत न होगी।

**नियम नं. (326)** निर्वाचन के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी उहदे के लिए न कोई अपना नाम प्रस्तुत कर सकता है और न ही अपने आप को वोट दे सकता है। अगर यह सिद्ध हो जाए कि निर्वाचन के वक्त किसी ने अपने आप को वोट दिया है या नाम पेश किया है तो वह उस उहदे के लिए निर्वाचित नहीं समझा जाएगा। अगर उस वक्त कोई और उहदा उसके पास हो तो उस से भी हटा दिया जाएगा।

**नियम नं. (327)** कोई व्यक्ति जो अपनी उम्र की दृष्टि से मजिलस अन्सारुल्लाह या मजिलस खुदामुल अहमदिया की तज्जीद में शामिल नहीं किसी उहदे पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**नियम नं. (328)** निर्वाचन में उपस्थित सदस्यों का वोट देना अनिवार्य होगा। किसी के भी हक्क में वोट न देने की इजाजत न होगी।

**नियम नं. (329)** निम्नलिखित लोगों को निर्वाचन के इज्लास में

---

हिस्सा लेने का हक्क नहीं होगा।

(अ) ऐसा व्यक्ति जिस के ज़िम्मे नियम नं. 341 के अनुसार मर्कज़ की मंज़ूरी के बिना बकाया चला आ रहा हो और वह उसे अदा न कर रहा हो।

(ब) स्त्रियां (मस्तूरात)

(ज) 18 साल से कम उम्र के बच्चे

(द) जो लोग जमाअत की तरफ से दण्ड के अंतर्गत हो

(ह) ऐसे लोग जो अपना मर्कज़ का चन्दा लोकल की व्यवस्था को तोड़ कर अलग तौर पर मर्कज़ में भिजवाने पर अड़े हों।

(व) ऐसे बालिग (वयस्क) स्टूडेण्ट जिन के खर्च की ज़िम्मेदारी अपने वालिदैन (माता-पिता) या सरपरस्तों (अभिभावकों) पर हो।

नियम नं. (330) निम्नलिखित लोगों को बतौर उहदेदार निर्वाचित नहीं किया जाएगा -

(अ) नियम नं. 329 के अनुसार जो वोट देने के पात्र (अहल) न हों।

(ब) अनिवार्य चन्दों के बकाया की अदायगी न करने की इजाज़त प्राप्त न करने वाले।

(ज) वसीयत के नियम नं. 72 के अनुसार जिस मूसी (वसीयतकर्ता) की वसीयत सदर अंजुमन अहमदिया की तरफ से निरस्त कर दी जाए।

(द) चन्दों की रकम निजी खर्च में लाने वाले।

नोट :- ऐसे लोगों के नाम रकम की वापसी और माफ़ी के बाद

3 साल तक किसी उहदे के लिए पेश न हो सकेंगे।

---

नियम नं. (341) चन्दा देने वालों से मुराद वे लोग हैं जो अपना चन्दा नियमित रूप से अदा करते हैं और जिन के ज़िम्मे चन्दा आम और चन्दा हिस्सा आमद का छः माह से अधिक समय का बक्राया न हो।

नियम नं. (342) अगर किसी बक्रायादार ने अपनी बक्राया रकम की अदायगी के बारे में संबंधित इदारे (विभाग) से मुहलत प्राप्त कर ली हो तो वह इस शर्त से उस वक्त तक अलग होगा जब तक कि उसने मुहलत ले रखी हो।

नियम नं. (344) लाज़िमी चन्दे के ऐसे बक्रायादार जिन्होंने बक्राया की माफी प्राप्त की है पांच साल तक नियमित रूप से लाज़िमी चन्दे अदा किए उहदेदार निर्वाचित हो सकेंगे।

नियम नं. (345) इजाज़त लेकर शरह (दर) से कम चन्दा अदा करने वाले लोग वोट देने के हक्कदार (अधिकारी) होंगे, लेकिन उहदों पर उनकी नियुक्ति या निर्वाचन मर्कज़ की इजाज़त से होगा।

### उहदेदारों की मंजूरी

नियम नं. (346) - लोकल उहदेदार जिन की नियुक्ति मर्कज़ से संबंधित है उनको उहदे से हटाना भी मर्कज़ से संबद्ध होगा, यद्यपि अमीर उन्हें उहदे से हटाने की सिफारिश कर सकता है। अमीर को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी उहदेदार को मर्कज़ के फैसला आने तक निलंबित (मुअत्तल) कर सके।

नियम नं. (347) नाज़िर आला लोकल उहदेदारों की नियुक्ति लोकल जमाअत के निर्वाचन और लोकल अमीर के मशवरे के साथ करेगा। नाज़िर आला को अधिकार होगा कि किसी भी कारण से

निर्वाचन की मंजूरी न दे या किसी उहदेदार को उसके उहदे से बिना कारण बताए अलग कर दे और नए निर्वाचन का निर्देश दे। इस्तिस्नाई हालतों (अपवाद की परिस्थितियों) में नाज़िर आला लोकल उहदेदारों को मनोनीत (नामज़द) भी कर सकेगा।

आवश्यक नोट :- सम्प्रदाना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम ने क़ादियान के मर्कज़ में एक “मर्कज़ी निर्वाचन कमेटी” नियुक्त की है जिस का सदर नाज़िर आला है। सदर तथा सेक्रेटरियों के निर्वाचन की मंजूरी इस कमेटी द्वारा दी जाती है।

नियम नं. (350) अगर किसी जगह किसी उहदे पर मजबूरी से किसी बक़ायादार को नियुक्त करना पड़े तो उस उहदेदार से यह लिखित अहद लिया जाएगा कि वह अपने बक़ाया को उचित निश्चित किस्तों में नियमित रूप से अदा करता रहेगा और उस किस्त की मंजूरी लोकल अमीर के माध्यम (वास्ते से) से या संबंधित विभाग के सदर से प्राप्त करना आवश्यक होगी। लेकिन अगर कोई बक़ायादार (सिवाय मूसी बक़ायादार के कि उस का बक़ाया माफ नहीं किया जा सकता) अपना बक़ाया बिलकुल अदा करने से माज़ूर (असमर्थ) है तो अपनी मजबूरियों को उसी वास्ते (माध्यम) से विवरण सहित (तफ़सील से) पेश करके ख़लीफ़तुल मसीह से माफ़ी लेगा।

नियम नं. (354) नए उहदेदारों के निर्वाचन की लिस्टें उनके पूरे पतों के साथ नज़ारत उलिया में आनी आवश्यक होंगी। लेकिन जब तक नए उहदेदारों की मंजूरी की सूचना नज़ारत उलिया की तरफ से न हो जाए उस वक्त तक पिछले उहदेदार ही काम करते रहेंगे।

---

### **मुतफर्रिक (विविध) :-**

नियम नं. (355) - नए उहदेदारों की मंजूरी होने पर पिछले उहदेदारों को काम का चार्ज तुरन्त पूरी ताफ़सील और पूरे रिकार्ड के साथ नए उहदेदारों के सुपुर्द कर देना आवश्यक होगा और नए उहदेदारों को चार्ज लेने के बाद दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर पिछले उहदेदारों से पिछले साल की रिपोर्ट लेकर संबंधित मर्कज के आफिसों को भिजवा दें वरना यह ज़िम्मेदारी बाद में उन पर ही पड़ेगी।

नियम नं. (363) जमाअतों में खत-व-किताबत (पत्राचार) सेक्रेटरियों के नाम की जा सकती है। इस स्थिति में उसकी नकल अनिवार्य तौर पर अमीर / सदर को भी जानी चाहिए।

नियम नं. (364) लोकल अमीर / सदर के लिए आवश्यक होगा कि अपने स्थान से बाहर जाने से पहले नाज़िर आला से पेशगी इजाज़त प्राप्त करे और अपने क़ायम म़काम (स्थानापन) की नियुक्ति कराए।

**नियम नं. (365)** लोकल अमीर / सदर को अगर ऐसी हालतों में अपने स्थान से बाहर जाना पड़े कि नाज़िर आला से पेशगी मंजूरी न ले सके तो वह अपनी मज्लिस आमिलः में से किसी को बतौर क़ायम म़काम नियुक्त करके नाज़िर आला को सूचना देगा बशर्ते कि यह ग़ैर हाज़िरी 15 दिन से अधिक न हो।

### **अमारत के निर्वाचन**

सम्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम ने हिन्दुस्तान की जमाअतों में अमारत की व्यवस्था (निज़ाम) क़ायम करने के लिए यह आदेश जारी किया है कि

“भविष्य के लिए 40 की बजाए 50 चन्दा देने वालों की संख्या अमारत के निर्वाचन के लिए कम से कम मैआर (मापदण्ड) होगा। बशर्ते कि बाकी ब्यौरा (कवायफ़) अर्थात् डाक्टर, टीचर तथा वकीलों इत्यादि की उचित संख्या भी वे पूरी करते हों तथा उसकी मंजूरी खलीफ़तुल मसीह से प्राप्त की गई हो।”

(हवाला पत्र QND 0314/06-02-2006)

इसलिए इस निर्देश के अनुसार कुछ जमाअतों के क्रवायफ़ और रिपोर्ट पेश करने पर हुज्जूर अन्वर ने कुछ अतिरिक्त जमाअतों में अमारत की व्यवस्था क्रायम करने की मंजूरी प्रदान की थी। अतः 2010 ई. में उन जमाअतों में अमारतों का निर्वाचन हुआ था।

### **अमारत का निर्वाचन, मज्लिस-ए-निर्वाचन के द्वारा होगा**

नियम नं. (331) अमीर, सेक्रेट्रीज़, मुहासिब, आडीटर का निर्वाचन बिना माध्यम के न होगा बल्कि एक मज्लिस-ए-इन्तिखाब के द्वारा होगा, जिस के मेंबरों को चन्दा देने वाले लोग नियमानुसार निर्वाचित करेंगे।

चन्दा देने वालों की संख्या 50 से 100 तक हो तो मज्लिस-ए-इन्तिखाब के सदस्यों (मेंबरों) की संख्या 11 होगी। इसके बाद हर पच्चीस (25) की अतिरिक्त संख्या के लिए एक मेंबर लिया जाएगा, अर्थात् अगर चन्दा देने वालों की संख्या 200 हो तो 15 मेंबर मज्लिस-ए-इन्तिखाब के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। और ये सब मेंबर 60 वर्ष से कम उम्र के होंगे।

60 साल से अधिक उम्र के चन्दा देने वाले जिनकी बैअत पर कम से कम 10 साल का समय गुज़र चुका हो तथा उनकी संख्या

---

60 साल से कम उम्र वाले मेम्बरों की संख्या के बराबर हो तो निर्वाचन के बिना मज्लिस-ए-इन्तिखाब के मेम्बर बन जाएंगे। अधिक होने की हालत में निर्वाचन के द्वारा उतने ही मेम्बर निर्वाचित किए जाएंगे जितने 60 साल से कम उम्र वाले मेम्बर 15 बनते हों और 60 साल से अधिक उम्र के चन्दा देने वालों की संख्या 20 या 25 हो तो उनमें से भी 15 मेम्बरों का ही निर्वाचन किया जाएगा। तथा इस निर्वाचन में सभी चन्दा देने वाले हिस्सा लेंगे। अर्थात् 60 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम अलग-अलग पेश होंगे लेकिन निर्वाचन में वोट देते वक्त सब उपस्थित (हाज़िर) मेम्बर्स इज्लास में हिस्सा लेंगे।

**नोट -** वोट देने और उहदे पर निर्वाचित होने के योग्य चन्दा देने वालों के लिए वही शर्त होंगी जो सदारत के निर्वाचन के क्रवाइट में लिखी जा चुकी हैं। (अर्थात् नियम नं. 329, और नियम नं. 330 और नियम नं. 341 से 345 तक)

नियम नं. (334) मज्लिस-ए-इन्तिखाब तीन साल के लिए होगी और उसके मेम्बरों की निधारित संख्या का चन्दा देने वालों की संख्या की औसत से पूरा रखना लोकल जमाअत के लिए आवश्यक होगा।

मज्लिस-ए-इन्तिखाब के मेम्बरों की मंजूरी का मामला सदर अंजुमन अहमदिया क्रादियान के माध्यम से हुज़ूर अन्वर की खिदमत में पेश होगा और मंजूरी के बाद अमीर और दूसरे उहदेदारों का निर्वाचन किया जाएगा।

नियम नं. (336) मज्लिस-ए-इन्तिखाब की जो रिपोर्ट लिस्ट के साथ निर्वाचित मेम्बर्स मज्लिस-ए-इन्तिखाब नज़ारत उलिया को मंजूरी

के लिए भिजवाई जाए उस पर मज्लिस-ए-इन्तिखाब के इज्लास में हाजिर निर्वाचित मेम्बरों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान तथा उनके पूरे पते लिखने आवश्यक होंगे।

नियम नं. (337) मज्लिस-ए-इन्तिखाब का सदर मज्लिस-ए-इन्तिखाब के इज्लास में हाजिर मेम्बरों में से बहुसंख्यक वोटों (कसरते राय) से नियुक्त किया जाएगा, सिवाए इसके कि इस उद्देश्य (मक्सद) के लिए नाजिर आला की तरफ से कोई प्रतिनिधि (नुमाइन्दः) मनोनीत कर दिया जाए।

नियम नं. (338) अगर मज्लिस-ए-इन्तिखाब का कोई मेम्बर मौत हो जाने, निवास स्थान बदल जाने के कारण मजबूरी या किसी और कारण से इस मज्लिस का मेम्बर न रहे तो उसकी सूचना तुरन्त नाजिर आला को देनी आवश्यक होगी (और फिर नाजिर आला की इजाजत से उसके बदले में मेम्बर निर्वाचित करके मंजूरी प्राप्त करनी होगी)

नियम नं. (340) उमरा के निर्वाचन में निम्नलिखित बातें विशेष तौर पर ध्यान में रखी जाएं —

- (अ) कम से कम चार (4) नाम पेश हों
- (ब) हर मेम्बर को तीन वोट देने का अधिकार होगा
- (ज) हर एक नाम के प्राप्त वोट तप्सील के साथ लिखे जाएं।
- (द) हर एक की बैअत का सन्, तालीमी योग्यता, उम्र, पेशा, जमाअत की पिछली खिदमात (सेवाओं) को लिखा जाए।

नियम नं. (348) उमरा, नायब उमरा के निर्वाचन या नियुक्ति की मंजूरी नज़ारत उलिया (सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान के माध्यम से) खलीफ़तुल मसीह से प्राप्त करेगी।

(अर्थात् मजिलिस-ए-इन्तिखाब के द्वारा निर्वाचित होने वाले अमीर और नायब अमीर की मंजूरी खलीफतुल मसीह प्रदान करेंगे। बाकी मजिलिस आमिलः के उहदेदारों की मंजूरी नज़ारत उलिया की तरफ से दी जाएगी। (इसी तरह जमाअत के सदर साहिबान और उनकी मजिलिस आमिलः की मंजूरी भी नज़ारत उलिया की तरफ से दी जाएगी)

नियम नं. (352) निर्वाचन की लिस्ट को मर्कज़ में भिजवाते हुए इस बात को वज़ाहत (स्पष्टीकरण) के साथ बयान करना चाहिए कि नियमों के अनुसार इस अंजुमन के कितने लोग वोट देने के योग्य हैं और उनमें से इज्लास के वक्त कितने हाज़िर (उपस्थित) थे।

नियम नं (353) इन्तिखाब (निर्वाचन) की लिस्ट पर इज्लास के सदर (अध्यक्ष) के अलावा दो ऐसे दोस्तों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे जिन के नाम किसी उहदे के लिए पेश (प्रस्तुत) न हुए हों परन्तु निर्वाचन की कार्रवाई में मौजूद रहे हों।

नियम नं. (371) सभी लोकल उहदेदार और उमरा अमीर मकामी क्रादियान को शामिल करते हुए जिसे हज़रत खलीफतुल मसीह कभी अपनी गँर मौजूदगी (अनुपस्थिति) में नियुक्त करें, अपने-अपने कार्य क्षेत्र (हल्क-ए-कार) में सदर अंजुमन अहमदिया के नाज़िरों के निर्देश और निगरानी के अधीन होंगे और हर नाज़िर को हर लोकल अंजुमन के सभी रिकार्डों को देखने और पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होगा और यह भी अधिकार होगा कि ज़रूरत के वक्त किसी रिकार्ड को क्रादियान या किसी और जगह मंगवा कर पड़ताल करे।

नियम नं. (373) लोकल जमाअत के लोग अगर लोकल अमीर के किसी फैसले या हुक्म या कार्रवाई इत्यादि के विरुद्ध कोई शिकायत

रखते हों तो उन्हें अधिकार प्राप्त होगा कि मर्कज्ज में अपनी अपील पेश करें और मर्कज्ज का फैसला लोकल अमीर और जमाअत के लोकल मेम्बरों के लिए मानना आवश्यक होगा। लोकल अमीर के फैसले या हुक्म के विरुद्ध जो अपील मर्कज्ज में की जाएगी वह लोकल अमीर के माध्यम से की जाएगी और लोकल अमीर का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपील को सात दिन के अन्दर-अन्दर अपनी राय के साथ मर्कज्ज में भेज दे और जब तक अपील का फैसला न हो अपील के अन्तर्गत हुक्म पर अमल करना अनिवार्य समझा जाएगा। परन्तु मर्कज्ज को अधिकार होगा कि आखिरी फैसले से पहले भी अपील के अन्तर्गत हुक्म पर अमल करने को रोक दे।

नियम नं. (374) (अ) - चूंकि लोकल अमीर लोकल जमाअत का आखिरी जिम्मेदार व्यक्ति है इसलिए उसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि राय में मतभेद होने की स्थिति में जिस वक्त किसी बात को जमाअत के हित (फायदे) में हानिप्रद तथा अमन और प्रबंध में विघ्न (मुखिल) समझे तो अपने अधिकार से बहुसंख्या की राय को रद्द कर दे, लेकिन ऐसी स्थिति में लोकल अमीर का यह कर्तव्य होगा कि वह नियमित रूप से एक रजिस्टर में जो जमाअत की मिल्कियत समझा जाएगा अपने मतभेद (इश्किलाफ़) के कारण लिखे या अगर उन कारणों का रजिस्टर में लिखना जमाअत के हित के विरुद्ध समझे तो कम से कम यह नोट करे कि मैं ऐसे कारणों पर जिनका इस जगह लिखना जमाअत के हित के विरुद्ध है बहुसंख्या की राय के विरुद्ध फैसला करता हूँ।

(ब) इस आखिरी बयान की गई बात में लोकल अमीर का यह कर्तव्य होगा कि अपने मतभेद के कारण लिख कर गोपनीय तौर पर

मर्कज्ज में भेजे। ऐसी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर भेजनी आवश्यक होगी। अमीर का कर्तव्य होगा कि वह रिपोर्ट करते ही अपनी मजिलस आमिलः को लिखित तौर पर सूचना दे दे कि उसने ऐसी रिपोर्ट कर दी है।

नियम नं. (376) हर लोकल निजाम (व्यवस्था) या हल्कों या ज़िला या इलाक़ा या सूबा या मुल्क के क्रम से व्यवस्था को मर्कज्ज की व्यवस्था के हर फैसले के विरुद्ध खलीफतुल मसीह के सामने अपील का हक्क होगा।

नियम नं. (377) इन बातों में जो जमाअत के सामूहिक हित को प्रभावित कर सकती हो लोकल अमीर / सदर को ज़ैली तंजीमों को हुक्म देने का अधिकार होगा जो लिखित होना चाहिए और उन उपरोक्त तंजीमों को अधिकार होगा कि अगर वे इस हुक्म को उचित न समझती हों तो अपनी मर्कज्जी मजिलस के माध्यम से सदर अंजुमन अहमदिया की तरफ आएं।

---

## जमाअत के उहदेदार और मज्लिस आमिलः की ज़िम्मेदारियां

---

सच्चिदिना हज़रत ख़ब्लीफ़तुल मसीह पंचम फ़रमाते हैं :-

“..... फिर अल्लाह तआला ने निर्वाचित उहदेदारों की ज़िम्मेदारी भी लगाई है कि तुम्हें जब निर्वाचित (चुन लिया) कर लिया जाए तो फिर उसे क्रौमी अमानत समझो उस अमानत का हक्क अदा करो। अपनी पूरी योग्यताओं के साथ उस ज़िम्मेदारी को निभाओ, अपने वक्त में से भी उस ज़िम्मेदारी के लिए वक्त दो। जमाअत की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करो और तुम्हारे फ़ैसले इन्साफ़ और न्याय की मांगों को पूरा करते हुए होने चाहिए। कभी तुम्हारा निजी अहं (अना), रिश्तेदारियों या दोस्तों का ध्यान रखना इन्साफ़ से दूर ले जाने वाला न हो। कभी किसी उहदेदार के दिल में यह विचार न आए कि अमुक व्यक्ति ने मुझे बोट नहीं दिया था या अमुक का नाम मेरे मुकाबले के लिए पेश होता था इसलिए मुझे कभी मौका मिला कभी किसी मामले में तो उसको भी तंग करूँगा। यह मोमिन की शान नहीं बल्कि अत्यन्त गिरी हुई हरकत है।”

“फिर दुनिया में हर जगह जमाअत के उहदेदारों की एक यह भी ज़िम्मेदारी है कि मुबल्लिग़ा और जितने भी ज़िन्दगी को बक़ऱ (समर्पित) करने वाले हैं उनका आदर-सम्मान करना और कराना अपने दिल में

भी पैदा किया जाए और लोगों के दिलों में भी उनकी इज्जत करना और कराना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना अपनी गुंजायश और सामर्थ्य के अनुसार उनके लिए आसानियां उपलब्ध (मुहैया) करना यह जमाअत का और उहदेदारों का काम है ताकि उनके काम में एकाग्रता (यकसूई) रहे। वे अपने काम को उत्तम ढंग से कर सकें, वे बिना किसी परेशानी के अपने कर्तव्यों की अदायगी कर सकें। अगर मुरब्बियों को इज्जत का स्थान नहीं देंगे तो आइन्दा नस्लों (भावी नस्लों) में फिर आप को जिन्दगी के वक़फ़ करने वाले और मुरब्बियों को तलाश करना भी कठिन हो जाएगा। यह अल्लाह तआला का उपकार (इहसान) है कि हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ<sup>र्ह</sup>. द्वारा जारी की गई वाक़िफ़ीन नौ की तहरीक के अन्तर्गत बहुत से वाक़िफ़ीन नौ बच्चे वक़फ़ के मैदान में आ रहे हैं।”

(छुत्ब: जुमा 31, दिसम्बर 2004 ई.)

### **जमाअत के उमरा व सदर साहिबान के कर्तव्य और अधिकार**

जमाअत में प्यार और मुहब्बत, एकता और भाईचारे का वातावरण (फ़ज़ा) क्रायम करना जमाअत के अमीर / सदर की प्रमुख ज़िम्मेदारी है। जमाअत के उहदेदारों के कामों की निगरानी का निरीक्षण और मार्ग-दर्शन (रहनुमाई) इसके अलावा हर माह एक बार मज्लिस आमिल: की मीटिंग बुलाकर मासिक (माहवार) कार्यकुशलता (कारगुज़ारी) का निरीक्षण करना भी अमीर तथा सदर की ज़िम्मेदारी है। अमीर और सदर को ज्ञान होना चाहिए कि जमाअत में कुल सदस्यों की संख्या पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को मिलाकर कितनी है और उसमें से कितने लोग चन्दा देने वाले हैं और कितने चन्दा न देने

वाले हैं, रोज़गार वाले कितने हैं और बिना रोज़गार वाले कितने हैं, कितने लोग नमाजी और जमाअत के निज़ाम (व्यवस्था) से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। अगर कोई इन मामलों में कमज़ोर है तो उनको इंगित (निशानदेही) करते हुए उनको सुधारने की कारबाई की तरफ ध्यान देना ये सब बातें भी अमीर और सदर की ज़िम्मेदारी के तहत आती हैं। दूसरे संबंधित उहदेदारों से इन मामलों में सहयोग लेना आवश्यक है। इस बारे में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाए —

(1) नियम नं. (366) अमीर या सदर, लोकल अमीर या सदर का कर्तव्य होगा कि खिलाफ़त के प्रतिनिधि (नुमाइन्दः) के तौर पर अपने हल्के के अहमदी लोगों की रुहानी, अखलाकी, समाजी और जिस्मानी (शारीरिक) भलाई के लिए यथासंभव प्रयासरत (कोशां) रहे और जमाअत की स्थापना और मज़बूती (क्रियाम और इस्तिहकाम) तथा तरक्की के प्रस्ताव सोच कर उन पर अमल करे।

(2) नियम नं. (367) — उमरा (या सदर) चूंकि लोकल जमाअत के आखिरी ज़िम्मेदार कारकुन (कार्यकर्ता) होते हैं, इसलिए उनको अपने हल्के में नेक नमूना बनने की कोशिश करना आवश्यक होगा और अपने आचरण (रवैये) को ऐसा हमदर्दी, नर्मी और इन्साफ़ से भरपूर रखना होगा कि उनकी आज्ञा का पालन करना लोगों के दिलों में खुद-बखुद (स्वयं) प्रेम और सम्मान के रंग में क्रायम हो जाए और मतभेदों की स्थिति में वे किसी पक्ष को पक्षपात करने वाले न समझे जाएं।

(3) नियम नं. (368) लोकल अमीर / सदर के लिए आवश्यक होगा कि सभी अहम (महत्वपूर्ण) मामलों में जमाअत के लोगों का

---

मशवरा प्राप्त किया करे और उसे सामान्यतः (उमूमन) बहुसंख्या की राय का सम्मान करना चाहिए और छोटे-छोटे मतभेदों के कारण बहुसंख्या की राय के विरुद्ध कदम नहीं उठाना चाहिए बल्कि अमीर या सदर मशवरों के वक्त कार्रवाई को ऐसे रंग में चलाए कि फैसले यथासंभव सर्वसम्मति से तय पाएं।

#### **अमीर या सदर के अधिकारों के बारे में वज़ाहत (स्पष्टीकरण)**

(4) नियम नं. (369) लोकल अमीर और सदर के अधिकार में एक यह अन्तर होगा कि लोकल अमीर लोकल अंजुमन के फैसलों का हर हाल में पाबन्द नहीं होगा अर्थात् इस्तिस्नाई हालतों में जमाअत के हित के अन्तर्गत उसे अपने कारण लिखित रूप में लाकर लोकल अंजुमन के फैसले को अस्वीकार (रद्द) करने का अधिकार होगा, लेकिन सदर बहरहाल लोकल अंजुमन के फैसलों का पाबन्द होगा। परन्तु अमीर / सदर दोनों ही मर्कज़ के अफसरों के निर्देश (हिदायत) के पाबन्द होंगे।

(5) नियम नं. (370) मज्लिस आमिल: को किसी दण्डनीय (ताज़ीरी) कार्यवाही का अधिकार नहीं होगा। हाँ अगर कोई जमाअत का मेम्बर जमाअत के निजाम (व्यवस्था) की अवज्ञा करता है तो मज्लिस आमिल: को सुधार की कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अगर सुधार की कार्रवाई करने में कामयाब न हो सके तो मर्कज़ को रिपोर्ट करे। मज्लिस आमिल: को किसी क्रज्ञा की हैसियत में कोई फैसला करने का अधिकार न होगा।

(6) नियम नं. (303) हर लोकल अंजुमन का कर्तव्य होगा कि मर्कज़ से जब कोई नाज़िर दौरे पर किसी जगह जाए तो खलीफतुल

मसीह के नुमाइन्दे की हैसियत में उचित सम्मान के साथ ज़रूरी प्रबन्ध करे।

(7) नियम नं. (305) - अगर किसी जमाअत में किसी विभाग का कोई उहदेदार निर्वाचित न होगा तो उस विभाग (शोबः) के काम की ज़िम्मेदारी सदर / अमीर पर होगी।

## विविध (मुतफर्रिक) मामलों के बारे में जमाअत के उहदेदारों के कर्तव्य

### **नायब अमीर तथा नायब सदर**

नायब अमीर तथा नायब सदर - अमीर और सदर के सभी कामों में आसानी पैदा करने के लिए सहयोगी के तौर पर होते हैं ताकि अमीर तथा सदर की अनुपस्थिति (गैर मौजूदगी) में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सभी मामलों में काम कर सकें।

### **जनरल सेक्रेटरी**

जिस बड़ी जमाअत में नायब अमीर या नायब सदर न हों वहाँ जनरल सेक्रेटरी का उहदा क्रायम किया जा सकता है। उन का काम भी अमीर और सदर के साथ सभी मामलों में सहयोग करना है। उनकी निजी ज़िम्मेदारी इसी हद तक है वरना दूसरे सेक्रेटरियों की मौजूदगी में जनरल सेक्रेटरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

## **सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद**

नज़ारत इस्लाह-व-इर्शाद और नज़ारत इर्शाद वक़्फ़े जदीद के निर्देशों की रोशनी में - जमाअत में कुर्अन करीम, हदीस तथा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पुस्तकों / प्रवचनों (मल्फूज़ात) के दर्स का प्रबंध करना, तरबियत के जल्सों का प्रबंध करना (कोशिश की जाए कि हर माह एक तरबियत का जल्सा हुआ करे) नमाज़, रोज़ा पर ज़ोर और बदरस्मों को दूर करने की कोशिश करना, अ़ख्लाक़ी और अमली मसाइल से जमाअत को परिचित कराना और सही अक्रीदों की तरफ रहनुमाई करना। जमाअतों में डिश लगाना और जमाअत के लोगों और गैर जमाअत के मेहमानों को MTA के प्रोग्राम तथा हुज़ूर अन्वर के खुल्बों से लाभ पहुंचाने की कोशिश करते रहना। अहमदियों में कोई परस्पर झगड़ा या मियां-बीबी के झगड़ों में इस्लाही कमेटी के सहयोग से सुधार की कोशिश करना। रिश्ते नाते के मामलों में रहनुमाई (मार्गदर्शन) करना और गैरों में रिश्ते करने का निषेध और उसकी हिक्मत से लोगों का अवगत (आगाह) करना और जो इस हुक्म से मुंह फेरे (न माने) उस का मामला मज्जिल आमिलः में पेश करना इसी तरह जमाअत के लोगों की तरबियत और इस्लाह (सुधार) के साधन अपनाना, सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद की ज़िम्मेदारी है।

सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद को इस्लाही कमेटी का सदर बनाया गया है इस के अनुसार उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो मामले उसकी निजी कोशिशों से हल न हों वे अमीर / सदर जमाअत के मशवरे से इस्लाही कमेटी में रखकर हल करने की कोशिश करे।

सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद की ज़िम्मेदारियों के बारे में सचिविदिना

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अपने खुत्बा जुमा 5 दिसम्बर 2003 ई. में फ़रमाते हैं कि - “फिर सेक्रेटरी तरबियत या इस्लाह-व-इशाद है उनको भी बहुत फ़अ़आल (कर्मठ) करने की आवश्यकता है। अगर ये सेक्रेटरी तरबियत या इस्लाह-व-इशाद कुछ जगहों पर कहलाते हैं अपने निश्चित प्रोग्राम बनाकर निचले से निचले स्तर से लेकर मर्कज़ के स्तर तक काम करें जिस तरह काम करने का हक्क है तो उम्रे आम्मः की समस्याएं भी इस तरबियत से हल हो जाएंगी, तालीम की समस्याएं भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। रिश्ते नाते की समस्याएं भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये शोबे (विभाग) आपस में इतने मिले हुए हैं कि तरबियत का शोबः (विभाग) फ़अ़आल (कर्मठ) होने से बहुत सारे शोबे स्वयं ही फ़अ़आल हो जाते हैं और जमाअत का सामान्य रूहानी मै'यार (स्तर) भी बुलन्द होगा।

### **नौ मुबाइयीन की तरबियत के लिए एडीशनल सेक्रेटरी इस्लाह-व-इशाद**

नौ मुबाइयीन की तरबियत के बारे में नज़ारत इस्लाह-व-इशाद और नज़ारत इशाद वक़फ़े जदीद के निर्देशों की रोशनी में नौ मुबाइयीन की इस्लाह (सुधार) और तरबियत की तरफ ध्यान देना तथा उनको नियमित रूप से निज़ाम-ए-जमाअत (जमाअत की व्यवस्था) से संबद्ध करके माली निज़ाम में शामिल करना।

### **सेक्रेटरी तालीमुल कुर्�আন वক़फ़ आरिज़ी (अस्थायी)**

नज़ारत तालीमुल कुर्�আন के निर्देशों की रोशनी में इस बात का रिकार्ड तैयार करना कि कितने लोग कुर्�আন करीम देखकर पढ़ना जानते हैं और कितने लोग कुर्�আন करीम के तर्जुमा (अनुवाद) को

जानते हैं। जो कुर्अन करीम पढ़ना नहीं जानते उन्हें कुर्अन करीम नाजिरः (देखकर पढ़ना) सिखाना और जो कुर्अन को तर्जुमः के साथ नहीं जानते उन्हें कुर्अन करीम तर्जुमः के साथ सिखाने का प्रबंध करना इन कामों के लिए और दीन (मजहब) का इल्म सिखाने के लिए जमाअत के लोगों में वक़फ़े आरिज़ी की तहरीक करना ताकि वक़फ़ आरज़ी करने वाले दोस्तों के द्वारा मजहबी तालीम (धार्मिक शिक्षा) और कुर्अन करीम की तालीम का सिलसिला (क्रम) जारी हो।

इसी तरह नज़ारत तालीमुल कुर्अन ने तालीमुल कुर्अन का जो मुरासलाती (पत्राचार) कोर्स जारी किया है उसमें अधिक से अधिक जमाअत के लोगों को शामिल करना।

इसके अलावा फ़ज़ले उमर तालीमुल कुर्अन क्लास में अधिक से अधिक नुमाइन्दों (प्रतिनिधियों) को भिजवाने का प्रबंध करना इत्यादि।

### **सेक्रेटरी दावत इलल्लाह**

नज़ारत दावत इलल्लाह के निर्देशों (हिदायतों) के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को दाई इलल्लाह (खुदा की तरफ बुलाने वाला) बनाना। नज़ारत दावत इलल्लाह के मुबल्लिगों के साथ सहयोग करते हुए उनके साथ मिलकर दाईयान इलल्लाह (खुदा की तरफ बुलाने वालों) की क्लासों (वर्कशाप) का प्रबंध (इंतज़ाम) करना। नई बैअतों के साथ-साथ पुराई खोई हुई बैअतों को तलाश करके बैअत के सम्पर्क (राबिता) के कार्य को तेज़ करना। बहस-मुबाहसः की स्थिति पैदा होने पर या विरोधी लिट्रेचर सामने आने पर ‘नज़ारत दावत इलल्लाह’ से रहनुमाई प्राप्त करके कारवाई करना। आवश्यकतानुसार तब्लीग संबंधी जल्सों का प्रबंध करना इत्यादि।

---

सम्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम दावत इलल्लाह की तरफ ध्यान दिलाते हुए अपने 4 जून 2004 के जुमा के खुत्बे में इशाद फ़रमाते हैं :-

“दावत इलल्लाह का काम एक स्थायी काम, स्थायी लगन से लगे रहने वाला काम है और यह नहीं है कि एक सम्पर्क या साल के अन्त में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए दो महीने वक्रफ़ कर दिए बल्कि पूरे साल इस काम में लगे रहना चाहिए और इस तरफ ध्यान देते रहना चाहिए और जिस आदमी को पकड़ें तो उसका पता लग जाता है कि किस स्वभाव का है। आपके जो भी सम्पर्क होते हैं तो ये सम्पर्क निरन्तर रहें। अन्त में एक वक्त ऐसा आएगा कि या तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि उसका दिल सख्त है और वह ऐसी ज़मीन ही नहीं जिस पर कोई वर्षा की बूंद असर कर सके, कोई नेकी का उस पर असर (प्रभाव) हो, तो उसे तो आप छोड़ें लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इस काम को लगातार जारी रहना चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए कि इस काम को साल के आखिर में कर लेंगे।

### **सेक्रेटरी उमूर आम्म:**

सेक्रेटरी उमूर आम्म: के सुपुर्द जमाअत के अन्दरूनी (आंतरिक) मामले होते हैं जो वह नज़ारत उमूरे आम्म: के निर्देशों के अनुसार पूरा करने का पाबन्द होता है। उदाहरण के तौर पर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार (व्यवसाय) उपलब्ध (मुहैया) कराना। सिद्दमत-ए-ख़ल्क़ (जन-हित) और भलाई के काम करना तथा रिलीफ़ को बांटने का काम करना, अनुशासन का क्रायम रखना।

---

जमाअत की सम्पत्तियों (इम्लाक़) की सुरक्षा का ध्यान रखना, आपस के झगड़ों को समझने-समझाने के द्वारा या फिर इस्लाही कमेटी के द्वारा दूर करके यह कोशिश करना कि मामलों को अदालतों में ले जाने की नौबत न आए और जो बिना इजाजत अदालतों में जाते हैं उनके बारे में उसी वक्त नज़ारत उमूर आम्मः में सूचना देना, दारुल क़ज़ा के फैसलों को नज़ारत उमूर आम्मः के निर्देशानुसार उसी वक्त लागू कराना। स्थानीय तथा ज़िला स्तर तक के सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क करके जमाअत के लोगों के जान-माल की हिफ़ाज़त (सुरक्षा) का प्रबंध करना तथा प्रेस और पब्लिसिटी के समस्त माध्यमों को जमाअत के हक्क (पक्ष) में इस्तेमाल करने की कोशिश करना इत्यादि।

सम्प्रियदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम सेक्रेटरी उमूर आम्मः की ज़िम्मेदारियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए अपने 5 दिसम्बर 2003 ई. के जुमा के खुल्बे में फ़रमाते हैं :-

“अब सेक्रेटरी उमूर आम्मः का केवल यही काम नहीं है कि आपस के फैसले करवाए जाएं या किसी की ग़लत हरकतें देखें तो उन्हें देखकर मर्कज़ में रिपोर्ट कर दी जाए। उसका यह काम भी है कि अपनी जमाअत के ऐसे बेकार लोग जिनके पास रोज़गार नहीं, खिदमत-ए-ख़ल्क़ का काम भी है और रोज़गार उपलब्ध करने का भी काम है, उसके लिए रोज़गार की तलाश में सहायता करे। कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर कारोबार करने की मानसिकता रखने वाले भी होते हैं, ऐसे लोगों की लिस्टें तैयार करें और ऐसे लोगों में योग्यता देखें तो थोड़ी बहुत धन द्वारा सहायता करके उन से मामूली कारोबार भी शुरू करवाया जा सकता है और अगर उन में योग्यता होगी तो

वह कारोबार चमक भी जाएगा और धीरे-धीरे अच्छा कारोबार करने वाला बन सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो साइकल पर फेरी लगा कर या किसी दूकान के तख्ते पर बैठकर टोकरी रखकर या कपड़े के कुछ थान रखकर बेचते थे इस वक्त दूकानों के मालिक बने हुए हैं। अतः यह हिम्मत दिलाना भी तथा ध्यान दिलाना भी, ऐसे लोगों के पीछे पढ़कर कि किसी न किसी काम पर लगें, यह भी जमाअत के निजाम के उहदेदार का काम है। जिसके सुपुर्द यह काम किया गया है अर्थात् सेक्रेटरी उमूरे आम्मः।”

### **सेक्रेटरी उमूरे खारिजः**

नज़ारत उमूरे खारिजः के निर्देशों के अनुसार जमाअत के मामले जो गैरों से संबंध रखते हैं सुलझाने की कोशिश करना। इसके लिए सूबे और मुल्क के स्तर पर सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क रखना। जैसे सूबे की विधान सभा के सदस्यों (MLAs) और संसद सदस्यों (MPs) तथा अन्य राजनीतिक (सियासी) लीडरों से संबंध रखना और उनको जमाअत के हित (मफ़ाद) के लिए इस्तेमाल करना।

सरकारी निर्वाचन के वक्त नज़ारत उमूरे आम्मः और नज़ारत उमूरे खारिजः के निर्देशों के अनुसार सेक्रेटरी उमूरे आम्मः के साथ मिलकर जमाअत के हित को ध्यान में रखकर कार्रवाई करना और जमाअत के विरोध के वक्त सेक्रेटरी उमूरे आम्मः तथा सेक्रेटरी उमूरे खारिजः दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। जमाअत के हित (मफ़ाद) को दृष्टिगत रखते हुए अगर कानूनी सहायता के लिए अदालत की तरफ जाना आवश्यक हो तो मुशीर कानूनी (लीगल एडवाइजर) और नज़ारत उमूरे खारिजः के मशवरे और रहनुमाई के अनुसार कार्रवाई की जाए।

---

## सेक्रेटरी तालीम (शिक्षा)

नज़ारत तालीम के निर्देशों के अनुसार जमाअत के नौजवानों और बच्चियों की दीनी-व-दुनियावी तालीम को देखना और उनकी उचित रहनुमाई (मार्गदर्शन) करते रहना। जमाअत के ज़हीन (मेधावी) बच्चे अगर धन की तंगी के कारण तालीम (शिक्षा) से वंचित (महरूम) रहे हों तो उन के लिए मर्कज़ से सम्पर्क करते हुए उनकी तालीम की सहायता की तरफ ध्यान दिलाना, मर्कज़ की तरफ से दीनी निसाब (मज़हबी सिलेबस) के इम्तिहानों (परीक्षाओं) में जमाअत के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना इत्यादि।

साय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम सेक्रेटरी तालीम की ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालते हुए अपने 5 दिसम्बर 2003 ई. के जुमा के खुल्बे में फ़रमाते हैं :-

“फिर सेक्रेटरी तालीम है, आम तौर पर तालीम के सेक्रेट्रीज़ जमाअतों में इतने फ़अ़आल (कर्मठ) नहीं जितनी उनसे उम्मीद की जाती है या किसी उहदेदार से उम्मीद की जा सकती है और मैं यों ही अन्दाज़े की बात नहीं कर रहा, हर जमाअत अपना-अपना निरीक्षण करे तो पता लग जाएगा कि कुछ सेक्रेटरी पूरे साल में कोई काम नहीं करते। हालांकि उदाहरण के तौर पर सेक्रेटरी तालीम का उदाहरण दे रहा हूँ। सेक्रेटरी तालीम का यह काम है कि अपनी जमाअत के ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाए जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल जाने की उम्र के हैं और स्कूल नहीं जा रहे फिर कारण मालूम करें कि क्या कारण है कि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। धन इत्यादि की कठिनाइयां हैं या सिर्फ़ निकम्मापन ही हैं। यह अहमदी बच्चे को तो ध्यान दिलाना चाहिए कि

इस तरह से वक्त नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हर बच्चे के लिए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह तृतीय<sup>rh</sup> ने यह शर्त लगाई थी कि मैट्रिक पास अवश्य करे बल्कि अब तो मै'यार (मापदण्ड) कुछ बुलन्द हो गए हैं और मैं कहूँगा कि हर अममदी बच्चे को एफ.ए. (10+2) अवश्य करना चाहिए।

### सेक्रेटरी माल

लोकल जमाअत के लाज़िमी चन्दों (हिस्सा आमद, चन्दा आम, चंदा जल्सा सालाना) का बजट समय पर तैयार करके मर्कज़ में नज़ारत बैतुल माल आमद को भिजवाना। इस बजट की एक नकल लोकल जमाअत के लिए महफूज़ (सुरक्षित) रखना। सभी कमाने वाले अहमदी दोस्तों (पुरुष और स्त्रियां) से उनकी पूरी आमदनी और दर के अनुसार लाज़िमी चन्दों की वसूली करना।

साहिबे निसाब लोगों से ज़कात की वसूली का प्रबंध करना।

वसूली करने वालों के निजाम की स्थिति में उनको रसीद बुक्स जारी करना और समय पर उन से रसीद बुक्स रक्म के साथ वसूल करना। जमाअत के दोस्तों को मर्कज़ के निर्देशों के बारे में आगाह (अवगत) रखने के लिए कोशिश करना और पालन करवाना।

शोबः: माल के बारे में मर्कज़ से नियमानुसार ख़तो किताबत (पत्राचार) करना तथा मर्कज़ को वांछित (मत्लूबः) जानकारियां तथा गोशवारे उपलब्ध करना। लाज़िमी (अनिवार्य) चन्दों की वसूली के अलावा हर तरह के माली (धन संबंधी) मामलों का संबंध सीधा सेक्रेटरी माल से है।

## **नायब सेक्रेटरी माल**

सेक्रेटरी माल से बकायादारों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन से सम्पर्क करना और बकाया की अदायगी की तहरीक करना। चन्दा ने देने वालों से सम्पर्क करके उन्हें चन्दा देने वाला बनाना।

नौमुबाइयीन को चन्दे में शामिल करके स्थायी ठोस हिस्सा बना कर पूरी दर के साथ माल के निज्ञाम में लाना।

## **सेक्रेटरी वसाया (वसीयत)**

सव्यिदिना हज़रत खलीफतुल मसीह पंचम की तहरीक निज्ञाम वसीयत में शामिल होने को नज़र में रखते हुए इस उहदे का महत्व अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। इस उहदे के लिए स्वयं मूसी (वसीयत करने वाला) होना आवश्यक है। वसीयत के निज्ञाम का संबंध असाधारण (गैर मामूली) माल की कुर्बानी है। हुजूर अनवर की तहरीक और इच्छा को सामने रखते हुए जमाअत के कम से कम 50% लोगों को वसीयत के पवित्र निज्ञाम में शामिल करने की कोशिश करना और दफ्तर बहिश्ती मक्कबरा से पहुंचने वाले निर्देश तथा सर्कुलर्ज के अनुसार अमली कार्रवाई करना और जमाअत के वसीयतकर्ताओं के सभी मामलों में रहनुमाई (मार्गदर्शन) करना वसीयत के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है।

## **सेक्रेटरी इशाअत (प्रकाशन)**

नज़ारत नश्र-व-इशाअत के निर्देशों के अनुसार उन से रहनुमाई प्राप्त करके काम करना। जमाअत के लिए लिट्रेचर उपलब्ध करना और जमाअत के प्रकाशन (इशाअत) के कामों में दफ्तर के निर्देशों के अनुसार काम करना।

---

## एडीशनल सेक्रेटरी इशाअत MTA के लिए

इस सेक्रेटरी को भी नज़ारत नश-व-इशाअत से ही सम्पर्क करके रहनुमाई लेना है।

### सेक्रेटरी जायदाद

निजामत जायदाद के निर्देशों के अनुसार जमाअत की जायदाद और सम्पत्तियों की देख रेख और सुरक्षा का प्रबंध करना। सभी चल और अचल (मन्कूलः और गैर मन्कूलः) जायदादों का रिकार्ड सही और पूरा रखना। सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान के नाम रजिस्ट्री और इन्तिकाल की कार्रवाई पूरी करवा कर संबंधित दस्तावेज़ों को रिकार्ड के लिए निजामत जायदाद क़ादियान में भिजवाना।

सभी चल और अचल जायदादों की लिस्ट तफ्सील के साथ एक रजिस्टर में दर्ज करके उसकी एक नक्ल निजामत जायदाद में भिजवाना आवश्यक है।

### सेक्रेटरी ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी)

सदर या अमीर के निर्देशानुसार जमाअत में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाज़ी (अतिथि सत्कार) का प्रबंध करना तथा उनके रहने का उचित प्रबंध इत्यादि करना।

### सेक्रेटरी तहरीक जदीद

दफ्तर वकालत-ए-माल तहरीक जदीद के निर्देशों से जमाअत के लोगों को सूचित करके तहरीक जदीद के चन्दे के महत्त्व की तरफ ध्यान दिलाते रहना। नए साल के आरंभ (आगाज़) के ऐलान (घोषणा) के साथ ही वादों का बजट तैयार करके मर्कज़ में भिजवाना और

वादों के अनुसार वसूली के लिए हर मुमकिन कोशिश करना और व्यक्तिगत (इन्फिरादी) वादों और उनके अनुसार वसूली का हिसाब अपने पास रखना सेक्रेटरी तहरीक जदीद की ज़िम्मेदारी है।

वसूल किए हुए तहरीक जदीद के चन्दे की रकम सेक्रेटरी माल के पास जमा करवाना होगी जो रोजनामचे में उन रकमों को लिखेगा और सेक्रेटरी माल ही सभी चन्दों के साथ यह रकम भी दफ्तर मुहासिब क्लादियान को उसी समय पर भिजवाने का पाबन्द होगा।

### **सेक्रेटरी वक़्फ़-जदीद**

सेक्रेटरी वक़्फ़ जदीद की ज़िम्मेदारी भी उसी तरह की है जो सेक्रेटरी तहरीक जदीद की है। दफ्तर निजामत-ए-माल वक़्फ़ जदीद के निर्देशों के अनुसार ही सेक्रेटरी वक़्फ़ जदीद काम करेगा।

### **सेक्रेटरी वक़्फ़ नौ**

सभी वाक़िफ़ीन नौ का व्यक्तिगत रिकार्ड और उनकी फाइलों को पूरा करके रखना और मुकर्रम नाज़िर साहिब तालीम और मुकर्रम इन्चार्ज साहिब दफ्तर वक़्फ़-ए-नौ भारत के निर्देशों के अनुसार वाक़िफ़ीन (वक़्फ़ करने वालों) को जमाअत के उत्तम सामान की तरह संभालना। उनके लिए नियमित क्लासों का प्रबंध करना और उन का मार्गदर्शन करना तथा उनके भविष्य (Future) के बारे में केरियर प्लानिंग कमेटी में वक्त पर उनके मामलों को पेश करना सेक्रेटरी वक़्फ़-ए-नौ की ज़िम्मेदारी (दायित्व) है।

### **मुहासिब-व-अमीन**

ये दोनों काम सेक्रेटरी माल पूरा कर रहे होते हैं। अगर सेक्रेटरी

माल का काम बढ़ जाता है तो उस स्थिति में मुहासिब और अमीन की नियुक्ति की जा सकती है वरना आवश्यक नहीं है। मुहासिब का काम जमाअत के हिसाबों का रखना है। आमद का हिसाब अलग हो और खर्चों का अलग हो। अमीन का काम सेक्रेटरी माल से रक्तम लेकर सुरक्षित रखना और रक्तम भेजने के वक्त रक्तम सेक्रेटरी माल को उपलब्ध करना है।

### आडीटर

सदर अंजुमन अहमदिया के नियमों के अनुसार लोकल अंजुमन के हिसाबों की पड़ताल करना तथा अपनी रिपोर्ट रजिस्टर मुआयना या रजिस्टर रोजानामचः में लिखना। हिसाब में गलतियों के मालूम होने पर उनकी दुरुस्ती करवाना इत्यादि। लोकल अंजुमन की ट्रैमासिक / सालाना ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके नज़ारत बैतुल माल आमद में भिजवाना और उस रिपोर्ट की नकल लोकल अमीर / सदर जमाअत को उपलब्ध करना। यह रिपोर्ट मज्लिस आमिलः में सेक्रेटरी माल पेश किया करेंगे।

### चन्दा वसूल करने वाले के कर्तव्य

अपने हल्के के जमाअत के लोगों से परिचित होना और उन से हर प्रकार का जमाअत का चन्दा वसूल करना और वसूल किए हुए चन्दे को रसीद बुक के साथ महीने में दो बार सेक्रेटरी माल के पास जमा करवाना।

---

## **ज़िला अमारतों और उनकी आमिलः**

---

### **के निर्वाचन के नियम और सच्चिदिना**

---

### **हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम के**

---

### **निर्देश तथा आदेश**

---

हिन्दुस्तान में पहले सूबे की अमारतों का निज़ाम (व्यवस्था) क्रायम था फिर यह ज़ोनल निज़ाम में परिवर्तित हुआ। सन् 2013 ई. से हुज़र अन्वर ने ज़िला का निज़ाम क्रायम करने का निर्देश जारी किया और जिस ज़िले में पांच या इस से अधिक जमाअतें मौजूद हों वहां ज़िले की अमारत के निज़ाम को क्रायम करने की मंज़ूरी प्रदान की।

अतः इस वक्त खुदा के फ़ज़ल से ज़िले की (111) अमारतें क्रायम हैं।

ज़िले की अमारतों के निर्वाचन (चुनाव) मनोनीत और उनकी आमिलः को मनोनीत करने के लिए जो नियम और आदेश हैं वे निम्नलिखित हैं :-

नियम नं. (296) जायज़ होगा कि एक से अधिक मामलों की लोकल अंजुमन को मिलाकर हल्कावार या ज़िला या इलाक़ा या सूबा या मुल्क की अंजुमनों का क्रमानुसार निज़ाम क्रायम किया जाए। इस स्थिति में उनमें से हर निज़ाम अपने से ऊपर वाले निज़ाम के अधीन होगा और ये सारे निज़ाम मर्कज़ के निज़ाम के अधीन होंगे।

नियम नं. (298) - हल्कावार अमारत का दायरा परिस्थितियों के

अनुसार नाजिर आला निर्धारित करेगा जो कम से कम पांच लोकल अंजुमनों पर आधारित होगा।

(नोट) — जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है कि हिन्दुस्तान में जिन ज़िलों में पांच या इस से अधिक जमाअतें मौजूद हैं वहाँ ज़िले की अमारत के निजाम को क्रायम करने की हुजूर अन्वर ने मंजूरी प्रदान की है।

### ज़िला अमीर के निर्वाचन के नियम

1. ज़िला-अमीर का निर्वाचन ज़िले की सभी जमाअतों के उमरा तथा जमाअतों के सदरों के द्वारा होगा। उस ज़िले के किसी भी जमाअत के व्यक्ति का नाम ज़िला-अमीर के लिए पेश किया जा सकता है बशर्ते कि वह नियमित रूप से चन्दा देने वाला हो और बक्रायादार न हो, अर्थात् नियम नं. (329) की शर्तों को पूरा करता हो।

2. लोकल अमीर / सदर जमाअत स्वयं निर्वाचन (चुनाव) की कार्रवाई में हिस्सा ले तो ठीक है अन्यथा उन का नुमाइन्दः निर्वाचन में शामिल नहीं हो सकता।

3. ज़िला अमीर के निर्वाचन का कोरम  $1/2$  से कम न होगा चाहे वह पहला इज्लास हो या दूसरा। अर्थात् अगर (10) जमाअतें हैं तो कम से कम पांच जमाअतों के उमरा और सदरों का निर्वाचन के वक्त उपस्थित रहना आवश्यक है।

कोशिश होनी चाहिए कि सिवाए अत्यन्त मजबूरी के कोई अमीर / सदर जमाअत अनुपस्थित न रहे।

4. ज़िला-अमीर के लिए कम से कम चार नाम पेश करने आवश्यक हैं।

5. हर मेम्बर को तीन वोट देना अनिवार्य है। हर मेम्बर तीन नाम पेश कर सकता है और तीन समर्थन कर सकता है। अर्थात् (आवश्यकता पड़ने पर एक मेम्बर एक से अधिक नाम पेश कर सकता है तथा एक से अधिक नामों का समर्थन कर सकता है)

6. हर पेश होने वाले नाम का बैअत का साल, तालीमी योग्यता, उम्र, पेशा, जमाअत की पहले से सेवाओं को लिखा जाए।

7. हर एक नाम के आगे प्राप्त किए वोटों को तफसील के साथ लिखा जाए।

8. ज़िला-अमीर के निर्वाचन की सदारत (अध्यक्षता) वह करवाए जिसका नाम ज़िला-अमीर के लिए पेश न हो सकता हो या मुरब्बियों से इज्लास की सदारत करवाई जाए।

तथापि (ताहम) नाजिर आला क्रादियान की तरफ से ज़िले के उमरा के निर्वाचन के लिए मर्कज़ के नुमाइन्दे नियुक्त करके सूचना दी जाएगी और वही अपनी निगरानी और सदारत में निर्वाचन करवाएंगे।

9. अगर किसी ज़िले में जमाअतें अधिक संख्या में हैं तो उस ज़िले के लिए नायब ज़िला-अमीर का भी निर्वाचन करवाया जाएगा।

10. ज़िले के उमरा के निर्वाचन की रिपोर्ट हुजूर अनवर की खिदमत में पेश करके मंजूरी / आदेश प्राप्त करके सूचना दी जाएगी।

## ज़िले की मज्जिलस-ए-आमिलः के लिए नियम

नियम नं (360) (अ) ज़िला-अमीर को अधिकार होगा कि अपनी मदद के लिए ज़िले की मज्जिलस-ए-आमिलः बनाकर नज़ारत उलिया से मंज़ूरी प्राप्त करे।

(ब) ज़िले की आमिलः, ज़िले के उमरा और उन उहदेदारों पर आधारित होगी जो विभिन्न मर्कज के विभागों (शोबों) के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज़िला अमीर मनोनीत करेगा और वह अपने शोबे (विभाग) के सेक्रेटरी ज़िला कहलाएंगे।

इसी तरह ज़िले का नाज़िम अन्सारुल्लाह और क़ाइद ज़िला खुददामुल अहमदिया और मुरब्बी ज़िला भी इस मज्जिलस-ए-आमिलः के मेम्बर होंगे।

(ज) ज़िला अमीर अपनी आमिलः के लिए केवल ऐसे कार्यकर्ता मनोनीत करेंगे जो नियम नं. 329 के अन्तर्गत वोट देने और उहदा (पद) पाने के योग्य हैं।

**(आवश्यक नोट)** - जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि सचिविदिना हुजूर अनवर ने क़ादियान में एक “मर्कज़ी इन्तिखाब कमेटी” नियुक्त की हुई है, ज़िलों के उमरा की तरफ से ज़िले की मज्जिलस-ए-आमिलः के जो नाम प्रस्तावित (तज्वीज़) करके भिजवाए जाएंगे उनके बारे में नज़ारत उलिया, नज़ारत बैतुल माल आमद और नज़ारत उम्रे आम्मः से क्लीयरेन्स प्राप्त करने के बाद “मर्कज़ी इन्तिखाब कमेटी” में पेश करेगी और “मर्कज़ी इन्तिखाब कमेटी” ही

---

ज़िले की मज्जिलस-ए-आमिल: की मंजूरी देगी)

◆ ज़िले की मज्जिलस-ए-आमिल: के लिए निम्नलिखित तफ़सील  
(13) सेक्रेटरियों के नाम लिखे जा रहे हैं :-

अगर ज़िले में जमाअतों की संख्या (10) से कम हो और नामांकन (तज्जीद) भी अधिक न हो तो शुरू के पांच उहदों (पदों) के लिए और बाकी आठ में से दो जो वहां की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हों कुल (7) उहदों के लिए ज़िले के सेक्रेटरियों के नाम प्रस्तावित करके भिजवाए जाएं। और जिन ज़िलों में जमाअत की संख्या (10) से अधिक है वहां के लिए उन सभी (13) उहदों के लिए ज़िले के सेक्रेटरियों के नाम प्रस्तावित करके भिजवाए जाएं।

उचित है कि हर उहदे के लिए दो-दो नाम प्रस्तावित किए जाएं ताकि 'मर्कज़ी इन्तिखाब कमेटी' देखकर किसी एक नाम की मंजूरी दे सके।

1. ज़िला सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद
2. ज़िला सेक्रेटरी दावत इलल्लाह
3. ज़िला सेक्रेटरी तालीमुल कुर्�आन वक़्फ़ आरिज़ी
4. ज़िला सेक्रेटरी इशाअत तथा एम. टी. ए.
5. ज़िला सेक्रेटरी माल
6. ज़िला सेक्रेटरी तालीम (शिक्षा)
7. ज़िला सेक्रेटरी वक़्फ़ नौ
8. ज़िला सेक्रेटरी उम्रे आम्म: व खारिज़:
9. ज़िला सेक्रेटरी वसीयत
10. ज़िला सेक्रेटरी जायदाद

- 
- 11. ज़िला सेक्रेटरी तहरीक जदीद
  - 12. ज़िला सेक्रेटरी वक्फ़े जदीद
  - 13. ज़िला सेक्रेटरी रिश्ता नाता

## **ज़िले के आदर्णीय उमरा के कर्तव्य**

### **तथा ज़िम्मेदारियां**

- 1. ज़िले की सभी जमाअतों का Update तज्जीद और मजालिस-ए-आमिल: की लिस्ट ज़िला-अमीर के पास होना अनिवार्य है।
- 2. ज़िला-अमीर का एक आफ़िस होना चाहिए जहां फोन / फैक्स की आसानी और ज़िले की आमिल: के मेम्बरों के लिए अपने-अपने शोबों (विभागों) की फ़ाइलें हों, जिन का वह निरीक्षण करके मर्कज़ के निर्देश की रोशनी में कार्रवाई करते रहें, जिसके पास फैक्स मशीन न हो वह नज़ारत उलिया में लिखकर प्राप्त कर ले।
- 3. मर्कज़ की सभी नज़ारतों और सी़गों (विभागों) से आने वाले निर्देशों पर किस रंग में कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करते रहना ज़िला-अमीर और आमिल: के मेम्बरों की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।
- 4. सभी जमाअतों से सेक्रेटरियों की मासिक कार्यकुशलता की रिपोर्ट नियमित रूप से भिजवाने का प्रबंध करना है।
- 5. ज़िला-अमीर की मासिक रिपोर्ट संलग्न (मुनस्लिक:) प्रोफ़ार्म के अनुसार भर कर भिजवाना।
- 6. हर माह ज़िले की आमिल: की एक मीटिंग अवश्य रखी जाए।
- 7. अब से वक्ती इम्दाद (सामयिक सहायता) / शादी की

सहायता / इलाज इत्यादि की सहायता तथा वज़ीफ़ों के लिए पत्राचार (खतो किताबत) मुकर्रम खुर्शीद अहमद साहिब अन्वर वकील-ए-माल तहरीक जदीद से करें। क्योंकि अब वह हुजूर अन्वर की मंजूरी से ‘खिदमत-ए-खल्क कमेटी भारत’ के सदर नियुक्त हैं।

8. हर माह ज़िला-अमीर स्वयं या उनका नुमाइन्दः (प्रतिनिधि) ज़िले की जमाअतों का दौरा करे और निम्नलिखित बातों का विशेष तौर पर निरीक्षण किया करे।

(i) एम.टी.ए. के द्वारा हुजूर अन्वर के जुमा के खुत्बों तथा दूसरे प्रोग्रामों से किस रंग में फ़ायदा प्राप्त किया जा रहा है, अगर कोई कमी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करे।

(ii) माल संबंधी बजट्स, लाज़िमी चन्दे, तहरीक जदीद और वक़फ़ जदीद के बना कर मर्कज़ को भिजवा दिए गए हैं या नहीं। वसूली और चन्दों में वृद्धि के लिए विशेष ध्यान।

(iii) वाक़िफ़ीन-नौ और वाक़िफ़ात-नौ (वक़फ़ करने वाले लड़के और वक़फ़ करने वाली लड़कियां) के बारे में निरीक्षण

(iv) जामिया अहमदिया क्रादियान में हुसूले तालीम (शिक्षा प्राप्त करने) के लिए वक़फ़ करने वाले लड़कों को भिजवाने के लिए तहरीक और कोशिश करना।

(v) तालीमुल कुर्�आन क्लासों का प्रबंध / वक़फ़ आरिज़ी की तहरीक में शामिल होने की तहरीक और कोशिश करना।

(vi) दावत इलल्लाह के सिलसिले में दाईयान इलल्लाह की तैयारी और उनको फ़अ़आल (कर्मठ) (बहुत काम करने वाला) बनाना।

---

(vii) जमाअतों में मस्जिदों / मिशन हाउस की क्या हालत है, रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज मर्कज़ में निजामत जायदाद को भिजवा दिए गए हैं या नहीं। मस्जिद और मिशन नहीं हैं तो उसे बनाने की क्या स्कीम हैं ?

(viii) जमाअत के लोगों की समस्याएं (मसाइल) तथा आपसी झगड़ों इत्यादि को सुधारने के लिए 'इस्लाही कमेटी' क्या कार्यवाही कर रही है। इस्लाही कमेटी को फ़अ़आल करने की कोशिश।

(ix) माह मार्च 2013 ई. की कारगुज़ारी (कार्यकुशलता) की मासिक रिपोर्ट का खुलासा (सारांश) जो हुजूर अन्वर की खिदमत (सेवा) में पेश हुआ उसमें यह बयान किया गया था कि हिन्दुस्तान की 1242 जमाअतों में से केवल 395 जमाअतों की तरफ से कारगुज़ारी की मासिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस पर हुजूर अनवर का यह निर्देश नाज़िर आला क़ादियान को प्राप्त हुआ है कि —

“सभी उमरा / सदर, जमाअत की फाइलें बनाएं और जिस सदर / अमीर जमाअत की तरफ से तीन-चार बार याद कराने के बावजूद मासिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है और न ही वे इस बारे में कोई वज़ाहत (स्पष्टीकरण) या मर्कज़ की चिट्ठी (पत्र) का उत्तर भिजवाता है तो ऐसे सदर / अमीर जमाअत का मामला आगे के समय से “मर्कज़ी इन्तिखाब कमेटी” में रखा करें और “मर्कज़ी इन्तिखाब कमेटी” उस सदर / अमीर जमाअत को परिवर्तित करने के बारे में पूरी पड़ताल करके अपनी संयुक्त (मुश्तरिकः) रिपोर्ट यहां रहनुमाई और मंजूरी के उद्देश्य से जिभवाएगी और मंजूरी के बाद उस सदर / अमीर जमाअत की जगह किसी दूसरे सदर / अमीर जमाअत की

---

नियुक्ति / निर्वाचन की कार्रवाई निर्धारित पद्धति के अनुसार हो सकेगी।

ऐसे सभी सदर / उमरा को इस तरफ विशेष ध्यान दिलाएं कि आगे आने वाले समय के लिए अब यह निर्देश है, आप अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करें और अपनी जमाअतों की मासिक रिपोर्ट समय पर मर्कज़ में भिजवाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध इस निर्देश की रोशनी में यह कार्रवाई करना अनिवार्य होगी। उहदा लेकर बैठ रहना बड़ी बात नहीं है। असल काम उस उहदे और ज़िम्मेदारी का हक्क अदा करना है।”

(हवाला पत्र नं. QND-7196/04052013)

---

---

---